



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2284]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, नवम्बर 22, 2012/अग्रहायण 1, 1934

No. 2284]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 22, 2012/AGRAHAYANA 1, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2012

का.आ. 2767(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2715(अ), तारीख 29 नवम्बर, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के 1053.230 कि.मी. से 1055.680 कि.मी. और 1058.040 कि.मी. से 1084.600 कि.मी. (गुंडुगोलनु-विजयवाड़ा सेक्शन) और 0.000 कि.मी. से 3.750 कि.मी. और 6.550 कि.मी. से 6.720 कि.मी. (हनुमान जंक्शन बाइपास सेक्शन) और 33.050 कि.मी. से 47.880 कि.मी. (विजयवाड़ा बाइपास सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 13-11-2012 को "साक्षी" और "द हिन्दू" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

आन्ध्र प्रदेश राज्य के करनूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के 33.050 कि. मी 47.880 कि. मी. तक (विजयवाड़ा बाइपास सेक्शन) 0.000 कि मी से 3.750 कि मी, 6.550 कि मी से 6.720 कि मी तक (हनुमानजंक्शन बाइपास सेक्शन) और 1053.230 कि मी से 1055.680 कि मी, 1058.040 कि मी से 1084.600 कि मी तक (गुण्डुगोलनु - विजयवाड़ा संक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक/मण्डल का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण /प्लॉट संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर (हनुमान जंक्शन बाइपास सेक्शन) 0.000 कि मी से 3.750 कि मी, 6.550 कि मी से 6.720 कि मी तक तक के लिए								
1	कृष्णा	1.वापुलपाडु	(1) वेलुरु	579/2ए	निजी	शुष्क	391	तुम्माला वीरइया
								तुम्माला रंगा राव
				579/4ए	निजी	शुष्क	405	मांतगी सोमेश्वर शेखर बाबू
								भारती वेकटेश्वर राव
				577/1ए	निजी	शुष्क	1295	बोलीगर्ला वेनुगोपाल राव
								बोलीगर्ला वाम्सी कृष्णा
								जामुला नारायण स्वामी
								चिक्कावाराप्पु इंदुकोडला
								वेकटेश्वर राव
				577/2ए	निजी	शुष्क	567	बोलीगर्ला श्री लक्ष्मी
								अन्ने वेकटा गिरी कृष्णा
								पालीचर्ला लक्ष्मी नारायणम्मा
				577/3ए	निजी	शुष्क	1538	पालीचर्ला लक्ष्मी नारायणम्मा
								इमांदी वेकटेश्वर राव
				575/1ए	निजी	शुष्क	2023	सजा बालेश्वरी सरस्वती
								बाला वेकटेश्वर राव
				575/3बी	निजी	शुष्क	5099	अदाप्पा वीरजनेयूलु
				575/4बी	निजी	शुष्क	1781	मयारा रामाइया
				571/1बी	निजी	शुष्क	4411	यनमदाला बालारामाइया
				571/2बी	निजी	शुष्क	3764	यनमदाला बाबू वेकंडिया राव
				571/3बी	निजी	शुष्क	4492	दत्ता सुब्बामा
				571/4बी	निजी	शुष्क	1781	दत्ता सुब्बामा
				569/1सी2	निजी	शुष्क	243	दत्ता सुब्बामा

1	2	3	4	5	6	7	8	
								दत्ता रामचन्द्र राव
				569/1डी1	निजी	शुष्क	6071	दत्ता सुब्बामा
								दत्ता वेंकटेश्वर राव
								अदाप्पा योगेश्वर राव
								दत्ता रामचन्द्र राव
				569/1ई2	निजी	शुष्क	7689	दत्ता वेंकटेश्वर राव
								दत्ता रामचन्द्र राव
								पुष्पापु सीता रामबाबू
								माथी वेंकट गोपाल कृष्णा
								दत्ता सुब्बामा
				569/1एपई2	निजी	शुष्क	7082	दत्ता सुब्बामा
								दत्ता वेंकटेश्वर राव
								दत्ता सेशा किरणमइ
								दत्ता रामचन्द्र राव
				570/1ए2	निजी	शुष्क	40	दत्ता सुब्बामा
								दत्ता वेंकटेश्वर राव
								दत्ता रामचन्द्र राव
			(2)वापुलपाडु	147/2बी	निजी	शुष्क	3764	उषालापति वेक्टरामा राजू
				147/3ए2	निजी	शुष्क	526	पुष्पापु नागा मालेश्वरा राव
				147/3बी	निजी	शुष्क	2792	पुष्पापु नागा मालेश्वरा राव
				147/3सी1	निजी	शुष्क	526	पुष्पापु नागा मालेश्वरा राव
				147/5बी2	निजी	शुष्क	3278	माजा सूर्या नारायण
				148/1डी2	निजी	शुष्क	4533	मोहम्मद अज़िया
				148/3बी	निजी	शुष्क	1093	नंदीगम श्रीनिवास राव
								कोली भारती देवी
				151/1ए1	निजी	शुष्क	81	मंगती लीला वेंकटा लक्ष्मी
				151/1बी1	निजी	शुष्क	405	इनिकेपल्ली वेंकटा वारा प्रसाद
				151/2ए	निजी	शुष्क	850	छेन्नुबोइना मामिलाम्मा
				151/3ए	निजी	शुष्क	1093	छेन्नुबोइना वीराइया
				151/4बी	निजी	शुष्क	659	अच्छना सोमाइया
				151/5ए	निजी	शुष्क	162	अच्छना सोमाइया
				151/7ए	निजी	शुष्क	1983	अच्छना सोमाइया
								अच्छना वेंकटेश्वरा राव
				155/1बी	निजी	शुष्क	7285	अटमली श्रीनिवास नागेशन
								कालेपल्ली प्रधवी राज

1	2	3	4	5	6	7	8	
				155/2बी	निजी	शुष्क	5747	कालेपल्ली प्रधवी राज
								कालेपल्ली विजया लक्ष्मी एवं अन्य
				156/1बी	निजी	शुष्क	551	कालेपल्ली प्रधवी राज
				156/2बी2	निजी	शुष्क	44	अच्छना लक्ष्मणा
		(3) कोनुमोलु (के सीताराम पुरम)		433/1	निजी	शुष्क	1416	मयारा पूर्णाचन्द्र राव
								मयारा गोवर्धन राव
								मयारा रविन्द्र बाबू
				434/1ए1	निजी	शुष्क	1295	मयारा रविन्द्र बाबू
				434/2बी	निजी	शुष्क	1295	मयारा उषा रानी
				434/3बी	निजी	शुष्क	1862	तालीबोइना वेंकाइया
				434/4ए	निजी	शुष्क	2064	कथारी अच्छम्मा
				434/5ए	निजी	शुष्क	89	अच्छना कोटेश्वरा राव
				435/1बी	निजी	शुष्क	890	बोला वेंकटेश्वर राव
				435/2बी	निजी	शुष्क	283	गोंगाला पवन कुमार
				435/3	निजी	शुष्क	2711	पिल्ली नागाइया
				435/4ए1	निजी	शुष्क	1862	मंगलीपति येसाइया
				435/5बी	निजी	शुष्क	526	एस.वी.ए. प्रोजेक्ट
				475/2	निजी	शुष्क	7811	कनुमुरी सत्यानारायण राजू
				476/1बी	निजी	शुष्क	4735	मयारा वेंकटेश्वरा राव
								मयारा सोभाद्री
								कनुमुरी सवितारम्मा
				476/2बी	निजी	शुष्क	364	छेनुबोइना वेंकटेश्वर राव
				476/3ए	निजी	शुष्क	174	मयारा सोभाद्री
								मयारा वेंकटेश्वरा राव
				476/4ए	निजी	शुष्क	1039	इनिकेपल्ली वेंकटाद्री
				484/2बी	निजी	शुष्क	121	कनुमुरी सूर्यानारायण
				486/1बी	निजी	शुष्क	5423	इनिकेपल्ली सामबाइया
								इनिकेपल्ली चन्द्रइया
				486/2बी	निजी	शुष्क	656	मारीदु नागाइया
				486/4बी	निजी	शुष्क	858	तादी सत्यानारायण
				486/6बी	निजी	शुष्क	3319	तौंदुरु वेंकाइया
				486/5	निजी	शुष्क	4816	तुमुरी वेंकटारामाइया
		(4) कानुमोलु (पेरिकीडु)		502/1बी	निजी	शुष्क	40	पोटनानी केशव राव
				502/4ए	निजी	शुष्क	2914	पोटनानी पारासुरामुदु
				502/5बी	निजी	शुष्क	850	पोटनानी पारासुरामुदु

1	2	3	4	5	6	7	8	
				502/6बी	निजी	शुष्क	480	पुटटी गंगाइया
				504/1बी	निजी	नम	4978	चिंतालापड़ी पदमजा
								कनुमुरी सवितारम्मा
				514/2	निजी	शुष्क	8944	कारीमाला भगवंता राव
								कोरीमाला वेंकटा रंगा राव
								बारामसेठी वेंकटरामाइया
								इनिकेपल्ली श्रीमनारायण
								कोरीमाला मुरली कृष्णा
								कोरीमाला वेंकट तिरुमाला रंगा राव
				517/2बी	निजी	शुष्क	752	पुटटी चिंताइया
				517/3बी	निजी	शुष्क	618	पुटटी कृष्ण राव
				517/4बी	निजी	शुष्क	2307	पुटटी कृष्ण राव
				517/6बी	निजी	शुष्क	4978	इनिकेपल्ली श्रीमनारायण
								इनिकेपल्ली अंजनेयूलु
				518/3बी	निजी	शुष्क	121	जेत्ती वेंकटेश्वरा राव
				518/4ए	निजी	शुष्क	2954	पालापोथु पवन चन्द्र किशोर
				518/5बी	निजी	शुष्क	2024	पुटटी वीरास्वामी
				518/9बी	निजी	शुष्क	1538	प्राथिपति प्रभाकर राव
				518/10बी	निजी	शुष्क	1538	तौंदुरु गंगाइया
				518/12बी	निजी	शुष्क	1295	जेत्ती वेंकटेश्वरा राव
				518/13बी	निजी	शुष्क	1862	वेरुवंती पिटछाइया शास्त्री
				518/14ए	निजी	शुष्क	40	जेत्ती नागा राजू
				519/2बी	निजी	शुष्क	3845	पिन्मनेनी श्रीनिवास राव
				520/2	निजी	शुष्क	7004	पिन्मनेनी श्रीनिवास राव
			(5) दन्तगुंल	1/1	निजी	शुष्क	257	पिन्मनेनी श्रीनिवास राव

[फा. सं. 3(डी)/पीआईयू-विजयवाड़ा/भारतप्रा/एचक्यू/11013/एलए/एनडीएलएस/2012-13]

माया प्रकाश, उप-सचिव

4377 GI/12-2

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd November, 2012

S.O. 2767(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2715 (E), dated 29.11.2011, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning / six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 5 on the stretch of land from Km. 1053.230 to Km 1055.680 and Km.1058.040 to Km.1084.600 (Gundugolanu - Vijayawada Section) and Km.0.000 to Km.3.750 & from Km.6.550 to Km.6.720 (Hanuman Junction Bypass Section) and from Km.33.050 to Km.47.880 (Vijayawada Bypass Section) in the District of Krishna in the State of Andhra Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Sakshi" and "The Hindu" both dated 13.01.2012; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 1053.230 to Km. 1055.680, and from Km.1058.040 to Km. 1084.600 of Gundugolanu - Vijayawada Section, and from Km.0.000 to Km.3.750 & from Km.6.550 to Km.6.720 of Hanuman Junction Bypass Section and Km. 33.050 to Km. 47.880 of Vijayawada Bypass Section of National Highway No.5 in the state of Andhra Pradesh

Serial number	Name of the district	Name of the taluk / mandal	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)	Name of the person interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
For 6-Laning in the Section of Hanuman Junction Bypass from Km.0.000 to Km.3.750 & from Km.6.550 to Km.6.720 of NH 5								
1	Krishna	Bapulapadu	(1) VELERU	579/2A	Private	Dry	391	Tummala Veeraiah Tummala Ranga Rao
				579/4A	Private	Dry	405	Matangi Someswara Sekhar Babu Bharati Venkateswara Rao
				577/1A	Private	Dry	1295	Bolligarla Venugopala Rao Bolligarla Vamsi Krishna Jammula Narayana Swamy Chikkavarapu Edukondala Venkateswara Rao
				577/2A	Private	Dry	567	Bolligarla Sri Lakshmi Anne Venkata Giri Krishna Palicharla Lakshmi Narayanamma
				577/3A	Private	Dry	1538	Palicharla Lakshmi Narayanamma Immandi Venkateswara Rao
				575/1A	Private	Dry	2023	Saja Baleswari Saraswathi Balla Venkateswara Rao
				575/3B	Private	Dry	5099	Adapa Veeranjanyulu
				575/4B	Private	Dry	1781	Mayara Ramaiah
				571/1B	Private	Dry	4411	Yanamadala Balaramaiah
				571/2B	Private	Dry	3764	Yanamadala Babu Venkaiah Rao
				571/3B	Private	Dry	4492	Dutta Subbamma
				571/4B	Private	Dry	1781	Dutta Subbamma
				569/1C2	Private	Dry	243	Dutta Subbamma Dutta Ramachandra Rao
				569/1D1	Private	Dry	6071	Dutta Subbamma Dutta Venkateswara Rao Adapatetra Yogeswara Rao Dutta Ramachandra Rao
				569/1E2	Private	Dry	7689	Dutta Venkateswara Rao Dutta Ramachandra Rao Pushadapu Sita Rambabu Mathi Venkata Gopaia Krishna
								Dutta Subbamma
				569/1F2	Private	Dry	7082	Dutta Subbamma Dutta Venkateswara Rao Dutta Sessa Kiranmai

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				570/1A2	Private	Dry	40	Dutta Ramachandra Rao Dutta Subbamma Dutta Venkateswara Rao Dutta Ramachandra Rao
			(2) Bapulapadu	147/2B	Private	Dry	3764	Uppalapati Venkata Rama Raju
				147/3A2	Private	Dry	526	Pushadapu Naga Malleswara Rao
				147/3B	Private	Dry	2792	Pushadapu Naga Malleswara Rao
				147/3C1	Private	Dry	526	Pushadapu Naga Malleswara Rao
				147/5B2	Private	Dry	3278	Majja Surya Narayana
				148/1D2	Private	Dry	4533	Md. Aziya
				148/3B	Private	Dry	1093	Nandigam Srinivasa Rao Kolli Bharati Devi
				151/1A1	Private	Dry	81	Maganti Leela Venkata Lakshmi
				151/1B1	Private	Dry	405	Enikepalli Venkata Vara Prasad
				151/2A	Private	Dry	850	Chennuboyina Mamillamma
				151/3A	Private	Dry	1093	Chennuboyina Veeraiah
				151/4B	Private	Dry	659	Achana Somaiah
				151/5A	Private	Dry	162	Achana Somaiah
				151/7A	Private	Dry	1983	Achana Somaiah Achana Venkateswara Rao
				155/1B	Private	Dry	7285	Atmali Srinivasa Nageshan Kallepalli Prudhvi Raj
				155/2B	Private	Dry	5747	Kallepalli Prudhvi Raj Kallepalli Vijaya Lakshmi & others
				156/1B	Private	Dry	551	Kallepalli Prudhvi Raj
				156/2B2	Private	Dry	44	Achana Lakshamma
			(3) KANUMOLU (K. SEETHARAM PURAM)	433/1	Private	Dry	1416	Mayara Purnachandra Rao Mayara Govardhana Rao Mayara Ravindra Babu
				434/1A1	Private	Dry	1295	Mayara Ravindra Babu
				434/2B	Private	Dry	1295	Mayara Usha Rani
				434/3B	Private	Dry	1862	Talliboyina Venkaiah
				434/4A	Private	Dry	2064	Kathari Achamma
				434/5A	Private	Dry	89	Achana Koteswara Rao
				435/1B	Private	Dry	890	Balla Venkateswara Rao
				435/2B	Private	Dry	283	Gongalla Pavan Kumar
				435/3	Private	Dry	2711	Pilli Nagaiah
				435/4A1	Private	Dry	1862	Mangalapati Yesaiah
				435/5B	Private	Dry	526	S.V.A. Project
				475/2	Private	Dry	7811	Kanumuri Satyanarayana Raju
				476/1B	Private	Dry	4735	Mayara Venkateswara Rao Mayara Sobhanadri Kanumuri Savitramma

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				476/2B	Private	Dry	364	Chennuboyina Venkateswara Rao
				476/3A	Private	Dry	174	Mayara Sobhanadri Mayara Venkateswara Rao
				476/4A	Private	Dry	1039	Enikepalli Venkatadri
				484/2B	Private	Dry	121	Kanumuri Suryanarayana
				486/1B	Private	Dry	5423	Enikepalli Sambaiah Enikepalli Chandraiah
				486/2B	Private	Dry	656	Mareedu Nagaiah
				486/4B	Private	Dry	858	Tadi Satyanarayana
				486/6B	Private	Dry	3319	Tonduru Venkaiah
				486/5	Private	Dry	4816	Tumuri Venkataramaiah
			(4) Kanumolu (PERIKEEDU)	502/1B	Private	Dry	40	Potnani Kesava Rao
				502/4A	Private	Dry	2914	Potnani Parasuramudu
				502/5B	Private	Dry	850	Potnani Parasuramudu
				502/6B	Private	Dry	480	Putti Gangai
				504/1B	Private	Govt. Wet	4978	Chintalapadi Padmaja Kanumuri Savitramma
				514/2	Private	Dry	8944	Korimarla Bhagavanta Rao Korimarla Venkata Ranga Rao Barramsetti Venkataramaiah Enikepalli Srimannarayana Korimarla Murali Krishna Korimarla Venkata Tirumala Ranga Rao
				517/2B	Private	Dry	752	Putti Chintiah
				517/3B	Private	Dry	618	Putti Krishna Rao
				517/4B	Private	Dry	2307	Putti Krishna Rao
				517/6B	Private	Dry	4978	Enikepalli Srimannarayana Enikepalli Anjaneyulu
				518/3B	Private	Dry	121	Jetti Venkateswara Rao
				518/4A	Private	Dry	2954	Pallapothu Pavan Chandra Kishore
				518/5B	Private	Dry	2024	Putti Veeraswamy
				518/9B	Private	Dry	1538	Prathipati Prabhakara Rao
				518/10B	Private	Dry	1538	Tonduru Gangaiah
				518/12B	Private	Dry	1295	Jetti Venkateswara Rao
				518/13B	Private	Dry	1862	Veruvanti Pitchaiah Sastry
				518/14A	Private	Dry	40	Jetti Naga Raju
				519/2B	Private	Dry	3845	Pinnamaneni Srinivasa Rao
				520/2	Private	Dry	7004	Pinnamaneni Srinivasa Rao
			(5) Danthaguntla	1/1	Private	Dry	257	Pinnamaneni Srinivasa Rao

[F. No. 3(D)/PIU-Vijayawada/NHA/HQ/11013/LA/NDLS/2012-13]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.